

५९

भारत का विधि आयोग



हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 से 26

पर

98वीं रिपोर्ट

अन्तरिम भरण-पोषण के लिये आदेश और वैवाहिक कार्यवाहियों में
अपत्यों के भरण-पोषण के लिये आदेश

अक्टूबर 1984

न्यायमूर्ति के० के० मैथ्यू

सं० फा० 2(14)/83-वि० आ०

अध्यक्ष

विधि आयोग

भारत सरकार

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

17 अप्रैल, 1984

प्रिय मंत्री महोदय,

मैं इसके साथ विधि आयोग की अठानवें रिपोर्ट भेज रहा हूँ जो "हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 से 26 तक : अंतरिम भरण-पोषण के लिए आदेश और वैवाहिक कार्यवाहियों में अपत्यों का भरण-पोषण" के संबंध में है।

विधि आयोग ने इस विषय को स्वयं चुना था। इस विषय पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता को रिपोर्ट के अध्याय 1 में स्पष्ट किया गया है।

आयोग श्री पी० एम० बड्डी, अंशकालिक सदस्य और श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, सदस्य-सचिव का आभारी हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार करने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है।

सादर,

आपका

हस्तांक

(के० के० मैथ्यू)

श्री जगन नाथ कौशल,
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री,
नई दिल्ली ।

संलग्न : 98वीं रिपोर्ट ।

विषय सूची	पृष्ठ
अध्याय 1 प्रस्तावना	1
अध्याय 2 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 से 26	2
अध्याय 3 बिना श्रीपत्रारिक आवेदन के अपत्यों का भरण-पोषण	4
अध्याय 4 अन्तरिम भरण-पोषण : प्रभावी तिथि	6
अध्याय 5 अपील पुनरीक्षण और प्रवर्तन	8
अध्याय 6 कार्यकारी पंक्ति पर प्राप्त टिप्पणियाँ	9
अध्याय 7 संस्कृतियाँ	13

अध्याय 1

प्रस्तावना

1. 1 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन अंतरिम भरण-पोषण के आदेशों से संबंधित कठिपय प्रश्न और अधिनियम के अन्तर्गत अपत्यों के भरण-पोषण संबंधी आदेश ही इस रिपोर्ट के विषय हैं। सुसंगत कानूनी प्रावधानों¹ से उत्पन्न अनेक विनियोगों पर विनिश्चयों में विरोध होने के कारण यह उचित ही है कि इन्हें विधायी संशोधनों द्वारा तथा अन्य विनियोगों पर भी निर्णयन विधि और अधिनियम पर लब्दों में चर्चा हुई है। इन चर्चाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आयोग को हिन्दू विवाह अधिनियम पर विचार प्रकट करने के अन्य भी एकाधिक अवसर प्राप्त हुए हैं,² लेकिन प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले विन्दु पर पहले कभी भी पूर्व रिपोर्टों में विचार नहीं किया गया जिनमें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का सर्वेक्षण ही था।

खेत्र ।

1. 2 आगे आने वाले अध्यायों में जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना प्रस्तावित है वे मुख्यतः प्रक्रिया संबंधी प्राकृति के हैं, किन्तु ये प्रश्न हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत वैवाहिक कार्यवाहियों में व्यवहार में प्रतिदिन उठते रहते हैं। वैसे भी चूंकि ये प्रश्न परिस्थिती और अपत्यों के भरण-पोषण से संबंधित हैं इसलिये इनका अपना ही व्यवहारिक महत्व है।

विचारणीय
विषय : उपकारी प्रगति ।

अतः यह बांछनीय है कि इस विषय पर कानून तथा और पूरे देश में एक रूप हो और उसे अधिनियम में सम्मिलित कर दिया जाय। इन्हीं कारणों से आयोग ने प्रस्तुत रिपोर्ट में हिन्दू विवाह अधिनियम की सुसंगत धाराओं पर विचार करना आवश्यक समझा।

1. 3 इसी स्थान पर यह बताना उपयुक्त होगा कि इस रिपोर्ट के विषय पर ही आयोग ने एक कार्यकारी पत्र तैयार किया था और उसे प्रसारित किया था³। जिसमें सुसंगत कानूनी प्रावधानों से उत्पन्न प्रश्न और संभावित समाधान भी दिये गये थे। इस कार्यकारी पत्र पर प्राप्त टिप्पणियों की इस रिपोर्ट में उपयुक्त स्थानों पर चर्चा की जावेगी⁴। इस समय इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कार्यकारी पत्र पर प्राप्त सारी टिप्पणियां इस रिपोर्ट द्वारा अधिनियम में संशोधन के लिये सुझायी गयी दिशा से सहमत हैं। आयोग ऐसे सभी लोगों के प्रति आभारी है जिन्होंने कार्यकारी पत्र पर उत्तर भेजे हैं।

आयोग द्वारा भेजा गया कार्यकारी पत्र ।

1. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 से 26।

2. भारत का विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट (हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954) तथा 71वीं रिपोर्ट (हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 विवाह का पूर्णतः भंग होना तलाक के एक आधार के रूप में)।

3. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 से 26 पर कार्यकारी पत्र; वैवाहिक कार्यवाहियों में अपत्यों के भरण-पोषण के लिये आदेश तथा अंतरिम भरण-पोषण के आदेश।

4. अध्याय 8 आगे।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 से 26

हिन्दू विवाह अधिनियम
धारा 24।

2. 1 मुख्य प्रश्न पर विचार करने से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के सुंगत प्रावधानों को देखें।

नीचे उद्दत अधिनियम की धारा 24 में वादलम्बित रहते भरण-पोषण और कार्यवाहियों के व्यय की चर्चा की गयी है।

"24 जहां कि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि यथास्थिति पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके संभाल और और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिये प्रयुक्त हो वहां वह पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आवेदन दे सकेगा कि वह अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान प्रति मास ऐसी राशि संदर्भ करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुये न्यायालय को युक्ति-युक्त प्रतीत हो।"

इसे ध्यान रखा जाय कि यह धारा पति-पत्नी भरण-पोषण (वाद लम्बित रहते) तक ही सीमित है। यह अपत्यों से संबंधित नहीं है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि कोई औपचारिक आवेदन हो।

हिन्दू विवाह अधिनियम
धारा 25।

2. 2 पति पत्नी के स्थायी निर्वाहिका और भरण-पोषण की चर्चा अधिनियम की धारा 25 में की गयी है जो निम्नवत् है:—

25. (1). इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा कोई भी न्यायालय डिक्री पारित करने के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, यथास्थिति, पति या पत्नी द्वारा इस प्रयोजन के लिये किये गये आवेदन पर यह आवेदन दे सकेगा कि प्रत्यर्थी उसके भरण-पोषण और संभाल के लिये ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक अथवा कालिक राशि, जो प्रत्यर्थी की अपनी आय और अन्य सम्पत्ति को, यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य संपत्ति को तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुये न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो, आवेदक या आवेदिका के जीवन-काल से अनधिक अवधि के लिये संदर्भ करे और ऐसा कोई भी संदाय यदि यह करना आवश्यक हो तो, प्रत्यर्थी की स्थायी संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा।

(2) यदि न्यायालय का समाधान हो जाय कि उसके उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने के पश्चात् पक्षकारों में से किसी भी परिस्थितियों में तब्दीली हो गई है तो वह कभी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो ऐसे किसी आदेश में फेरफार कर सकेगा या उसे उपान्तरित अथवा विखंडित कर सकेगा।

"(3) यदि न्यायालय का समाधान हो जाय कि उस पक्षकार ने जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश किया गया है पुनर्विवाह कर लिया है या यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है तो वह सतीत्रान्त ही रह गई है या यदि ऐसा पक्षकार पति है तो उसने किसी स्त्री के साथ विवाह बाह्य मैथुन किया है, तो वह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसे किसी आदेश की ऐसी रीति में, जो न्यायालय न्याय संगत समझे, परिवर्तित, उपान्तरित या विखंडित कर सकेगा।"

यह धारा भी पति पत्नी तक ही सीमित है और औपचारिक आवेदन को आवश्यक समझता है। यह स्थायी भरण-पोषण तक सीमित है जबकि धारा 24 अन्तरिम भरण-पोषण तक सीमित है।

हिन्दू विवाह अधिनियम
धारा 26।

2. 3 अपत्यों ते संबंधित अंतरिम आदेश और कार्यवाही के समाप्त होने पर पारित होने वाले आदेश दोनों की ही चर्चा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 26 में की गयी है। धारा निम्नस्थ है:—

"26 इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय अप्राप्तवय अपत्यों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में, यथा संभव उनकी इच्छा के अनुकूल समय-समय पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जिन्हें वह

न्याय संगत और उचित समझे और डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्याय संगत और उचित समझे और डिक्री के पश्चात् इस प्रयोजन से अर्जी द्वारा किये गये आवेदन पर ऐसे अपत्य की अभिरक्षा भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में समय-समय पर ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने की कार्यवाही के लम्बित रहते ऐसी डिक्री या अन्तरिम आदेश द्वारा; किये जा सकते थे और न्यायिलय पूर्वतन किये गये ऐसे किसी आदेश या उपबंध को समय-समय पर प्रतिसंहृत या निलंबित कर सकेगा अथवा उसमें फेरफार कर सकेगा”।

इस धारा का पहला भाग जिसमें अंतरिम भरण-पोषण की व्यवस्था है, में आवेदन की आवश्यकता नहीं है। दूसरे भाग में भी जो कार्यवाही के समाप्त होने पर अपत्यों के भरण-पोषण से संबंधित है आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

2. 4 इसमें दिखाई देगा कि—

पति-पत्नी और अपत्यों
के लिये अलग धारा।

- (i) पति-पत्नी के अंतरिम भरण-पोषण और अपत्यों के अंतरिम भरण-पोषण की चर्चा अधिनियमों की दो भिन्न धाराओं (धारा 24 और 26 में क्रमशः) में की गयी है।
- (ii) इन धाराओं में से एक (धारा 24) में आवेदन की चर्चा है, किन्तु दूसरी (धारा 26) धारा में इसकी आवश्यकता नहीं है (अंतरिम आदेशों से संबंधित भाग में)।

प्रकटतः यह बहुत छोटा मामला है जिसका जिक्र यहां इसलिये किया जा रहा है क्योंकि आगे के अध्यायों में इसी पर चर्चा की जावेगी।

बिना औपचारिक आवेदन के अपत्यों का भरण-पोषण

अपत्यों का अंतरिम भरण-पोषण !

3. 1 हिन्दू विवाह अधिनियम के उपर चर्चित प्रावधान¹ के संदर्भ में पहला प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह यह है—क्या उक्त अधिनियम² की धारा 24 के अधीन अपत्यों को धारा 26 के अधीन अलग आवेदन के अभाव में भी अंतरिम भरण-पोषण की सहायता दी जा सकती है³ ?

धारा 24 और 26 के संबंध में विचारों में विरोध ।

3. 2 इस बिन्दु पर न्यायिक निर्णयों में विरोध है । अधोलिखित उच्च न्यायालयों का विचार है कि धारा 26 के अधीन अपत्यों के भरण-पोषण के लिये अलग से आवेदन न होने पर भी न्यायालय को धारा 24 के अधीन पत्नी द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही पर अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिये और अपत्यों को भरण पोषण दिया जाना चाहिये ।

- (1) आन्ध्र प्रदेश⁴
- (2) दिल्ली⁵
- (3) कर्नाटक⁶
- (4) केरल⁷
- (5) पंजाब और हरियाणा⁸ और
- (6) राजस्थान⁹

3. 3 इसके विपरीत धारा 26 के अधीन बिना औपचारिक आवेदन के इस प्रकार की शक्ति का न्यायालय द्वारा प्रयोग नीचे दिये उच्च न्यायालयों द्वारा मना किया गया है ।

- (i) जम्मू और कश्मीर¹⁰
- (ii) ओडिशा¹¹ और
- (iii) पटना¹²

निर्णयन विधि का पुनर्विलोकन ।

3. 4 इस विषय पर निर्णयन विधि की विस्तृत चर्चा कुछ व्यवस्थाओं में की गई है जिनमें से आंध्र प्रदेश¹³ की व्यवस्था अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । संघ्रोग से केरल के निर्णय¹⁴ जिसमें उदार विवाह का समर्थन किया गया था, पर एक ला जर्नल¹⁵ में प्रकाशित लेख में पक्ष और विपक्ष में बहुत टिप्पणियां की गयी हैं ।

1. अध्याय 2 अपर
2. अनुच्छेद 2, 2 अपर
3. अनुच्छेद 2, 3 अपर
4. नरेन्द्र कुमार वि. सूरज मेहता ए. आई. आर. 1982 आ. प्र. 100
5. दामोदर वि. विमला [1974 थी. एल. आर. (दिल्ली)]
6. डी. यिसप्पा वि. नागशेन ए. आई. आर. 1976 कर्नाटक 215
सुभासिधी वि. उमाकान्त ए. आई. आर. 1981 कर्नाटक 115
7. राधाकुमारी वि. के. एस. के. नायर 1982 केरल ला टाइम्स 417
8. द्वितीयकौर वि. रमेश ए. आई. आर. 1974 पंजाब और हरियाणा 225
9. बाबूलाल वि. प्रेमलता ए. आई. आर. 1974 राज्य 93.
10. पूरनचंद वि. कमला देवी ए. आई. आर. 1981 जे. के. 5
11. अकासम चिन्नाबाबू वि. असकम पांडेती ए. आई. आर. 1967 ओडिशा 163
12. वंकिम जंद्र वि. अजली ए. आई. आर. 1972 पटना 80
13. नरेन्द्र कुमार विण सूरज महेता ए. आई. आर. 1982 आ. प्र. 100
14. राधाकुमारी वि. के. एस. के. नायर 1982 के एल टी. 417
15. थी. थी. अपत्यन श्री एस. बाबू चन्द्रन श्री सी. वी. मीम्पू और श्री की. के. मीम्पू के जीव 1982 के. एल. टी. जर्नल के पृष्ठ 65, 79, 83 और 90 पर देखें ।

3. 5 पूर्व स्थिति निर्णयन विधि हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अपत्यों के अंतरिम भरण-पोषण के आदेश से ही बँछित है। कुछ इसी प्रकार का न्यायिक विवाद अपत्यों के स्थायी भरण-पोषण के आदेश को लकर भी उत्पन्न हुआ है। ठीक-ठीक प्रश्न निम्नलिखित है।

पत्नी के द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन दिये गये आवेदन पर चाहे पत्नी के आवेदन में धारा 26 का सुनिश्चित उल्लेख न हो, क्या अपत्य के लिये भरण-पोषण की सहायता (हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 26) दी जा सकेगी?

मद्रास उच्च न्यायालय¹ के अनुसार यह किया जा सकता है। बम्बई² और गुजरात³ उच्च न्यायालय के अनुसार यह नहीं किया जा सकता है।

3. 6 दोनों प्रश्नों पर विचार करते पर जिनके कारण ऊपर वर्णित⁴ कठिनाई पैदा हुई है यह स्पष्ट हिन्दू विवाह अधिनियम होगा कि दोनों ही प्रश्नों पर कानूनी स्थिति को तथ करते की आवश्यकता है क्योंकि यह फिर बार-बार की धारा 26 में संशोधन की आवश्यकता। उत्पन्न होने वाले प्रश्न हैं। जहां तक संशोधन का क्षेत्र है यह अच्छा होगा कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 26 के अधीन न्यायालय की अधिकारिता को विस्तृत कर दिया जाय जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि इसके अधीन अधिकारिता का प्रयोग आवेदन या बिना आवेदन के किया जा सकता है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हिन्दू विवाह अधिनियम⁵ की धारा 26 में समय-समय पर शब्दों के पश्चात् और अप्राप्त वय अपत्य की ओर से इस उद्देश्य के लिये कोई आवेदन किया गया है अथवा नहीं, शब्द को जोड़ देने से हो जायेगा। इस प्रकार का संशोधन यह स्पष्ट करते के लिए पर्याप्त होगा कि (i) अपत्यों के संबंध में अंतरिम आदेश (ii) और उनके संबंध में स्थायी आदेश बिना औपचारिक आवेदन के किया जा सकेगा। निसंदेह न्यायालय ऐसे आदेश तभी पारित करेगा जब अपत्य हों और अपत्यों के अभिरक्षण शिक्षा और भरण-पोषण की आवश्यकता वर्तमान हो।

धारा का संशोधन करते हुये इसकी आवश्यकता पर सुनिश्चित रूप से बल देने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दशा में धारा में न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन किया गया है न कि कर्तव्य का धारा 26 का वर्तमान रूप पाठक पर कुछ ज्ञादा ही जोर डालता है। अतः धारा को उपधाराओं में तोड़ने का भी यही अवसर है, जिससे पढ़ने में अधिक सुविधा हो।

1. मुन्तु स्वामी राजू वि. हंसरानी ए. आई. आर. 1975 मद्रास 15

2. डल्लीराम जैन वि. तारावती ए. आई. आर. 1962 बम्बई 15

3. धरमंशी ब्रेम जी बाई सरकार कान जी ए. आई. आर. 1968 गुजरात 150

4. ऊपर अनुच्छेद 3.1 और 3.5

5. ऊपर अनुच्छेद 2.3

6. ऊपर अनुच्छेद 2.6

अंतरिम भरण-पोषण : प्रभावी तिथि

प्रभावी तिथि।

4. 1 हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 से ही दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत अंतरिक भरण-पोषण के प्रभावी होने की तिथि से संबंधित है। क्या यह भरण-पोषण याचिका के संबंध की तामील होने की तिथि से ही प्रदान किया जा सकता है? अथवा क्या यह अंतरिक सहायता के आवेदन (जहाँ इस प्रकार का आवेदन किया गया हो) प्रस्तुत करने की तिथि से स्वीकार किया जाना चाहिये? अथवा, अंतरिम सहायता के आदेश की तिथि से प्रभावी होना चाहिये? हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 26 इस संबंध में भी इसी तिथि से ही प्रदान किया जाना चाहिये? क्या यह अंतरिम सहायता के आदेश की तिथि से प्रभावी होना चाहिये? यह अंतरिम सहायता के आदेश की तिथि से प्रभावी होना चाहिये? यह अंतरिम सहायता के आदेश की तिथि से प्रभावी होना चाहिये?

एक दृष्टिकोण मुख्य याचिका की तामील की तिथि ही प्रभावी तिथि।

4. 2 कुछ उच्च न्यायालयों के अनुसार मुख्य याचिका के समन की तामील की तिथि ही अंतरिम भरण-पोषण के आदेश के प्रभावी होने की तिथि हो सकती है। ऐसा दृष्टिकोण निम्न लिखित उच्च न्यायालयों का है:—

- (1) कलकत्ता¹
- (2) दिल्ली²
- (3) केरल³
- (4) मैसूर⁴ और
- (5) पंजाब और हरियाणा⁵

दूसरी दृष्टिकोण विवादों की तिथि।
प्रभावी तिथि।

तीसरा दृष्टिकोण
अंतरिम सहायता के
लिये आवेदन की तिथि
ही प्रभावी तिथि।

अपील में भरण-पोषण।

4. 3 दूसरा दृष्टिकोण है कि आदेश की प्रभावी तिथि मुख्य याचिका के बाद की तिथि हो सकती है। इस प्रकार जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के एक निर्णय⁶ के अनुसार विवादिकों की संरचना (मुख्य याचिका में) किये जाने की तिथि से ही भरण-पोषण की अदायगी होती चाहिये।

4. 4 आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय⁷ के अनुसार दम्पत्ति द्वारा धारा 24 के अधीन अंतरिम सहायता के लिये आवेदन की तिथि से ही भरण-पोषण देय है। ऐसा निर्णय देने की पृष्ठ भूमि में यह विचार है कि ऐसा न होने से प्रत्यर्थी मुख्य समन की तामीली को टालकर आवेदन को प्रभावहीन बना देगा।

4. 5 इसी प्रकार का विवाद अपील के प्रकार में भरण-पोषण दिये जाने की तिथि के संबंध में उत्पन्न हो गया है⁸। इलाहाबाद के एक मुकदमे में बाद विलम्बित रहने तक का निर्वाह व्यय का दावा अपील में किया गया था और अपील के प्रस्तुतीकरण की तिथि के (भूतलक्षी तिथि से) स्वीकृत किया गया था⁹। किन्तु आनन्द प्रदेश की एक व्यवस्था के अनुसार¹⁰ अंतरिम भरण-पोषण का आदेश अपील की नोटिस की तामील की तिथि के पहले की तिथि से प्रभावी नहीं हो सकता है।

1. समीर बनर्जी वि. सुजाता बनर्जी 1966 (70) कलकत्ता वीकली नोट्स 642 शोभना वि. अमरकान्ता ए. आई. आर. 1959 कलकत्ता 455

2. गंजना देवी वि. पुल्लोतम ए. आई. आर. 1977 दिल्ली 178

3. रघाकुमारी वि. के. एम. एन. नायर 1982 केरल ला लाइस 417, 424 अनु. 26

4. एम. सत्रमन्यम वि. एम. सी. सरस्वती ए. आई. आर. 1964 मैसूर 38

5. सरिता मेहता वि. अरविन्द कुमार मेहता 1978 (8) पंजाब ला रिपोर्ट 913

6. पूर्णचंद वि. कमला ए. आई. आर. 1981 जम्मू कश्मीर 5 (राज्य अधिनियम के तदुरूप प्रवधान पर निर्णय)

7. नरेन्द्र कुमार वि. सुरज मेहता ए. आई. आर. 1928 आ. प्र. 100, 106 अनुच्छेद 18

8. अपील के प्रकार के लिये देखें—तरलोचन सिंह वि. मोहिन्दर कौर ए. आई. आर. 1963 पंजाब 249, 250

9. महावीर प्रसाद वि. पुष्पमाला (1970) इलाहाबाद ला जारी 1406

10. सुन्दराच वि. अनुसूयमा ए. आई. आर. 1957 आ. प्र. 170

4. 6 ऐसी अवस्था में यह वांछनीय है कि सुनिश्चित कानून हिन्दू विवाह अधिनियम में एक प्रावधान हिन्दू विवाह अधिनियम में धारा 26 अ जोड़कर जोड़कर बना दिया जाय जिसे हम धारा 26 के कहें—इसके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाय कि धारा 24 के अधीन (पति-पत्नी) अथवा धारा 26 के (अपत्यों) अधीन अंतरिम भरण-पोषण का आदेश—संशोधन करते को आवश्यकता !

(क) उस तिथि से जो तिथि धारा के अधीन आवेदन के पूर्व नहीं हो और जिसे न्यायालय परिस्थितियों में न्याययुक्त और उचित समझे।

(ख) अथवा, जहां धारा 26 के अधीन आवेदन नहीं दिया गया हो वहां मुख्य कार्यवाही जिस याचिका के आधार पर प्रारम्भ की गई है उसकी नोटिस की तामील की तिथि से (उसके पूर्व की किसी तिथि से नहीं) यदि न्यायालय परिस्थितियों में न्याययुक्त और उचित समझे; प्रभावी किया जा सकेगा।

अपील पुनरीक्षण और प्रवर्तन

अपील, पुनरीक्षण
(अंतरिम आदेश) ।

5. 1 हिन्दू विवाह अधिनियम¹ के अधीन पारित अन्तरिम भरण-पोषण के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण की सक्षमता के विषय में प्रश्न उठाये गये हैं। हमने इस बात पर कुछ विचार किया है और इस परिणामपर पहुंचे हैं कि धारा 28 के संशोधन के पश्चात् इस संबंध में कोई कठिनाई या अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिये। संक्षेप में यदि कहा जाय तो संशोधित धारा 28 से जो स्थिति स्पष्ट होती है उसके अनुसार अंतरिम भरण-पोषण का आदेश अपील योग्य नहीं है। अतः इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध कानून में पुनरीक्षण अनुज्ञा नहीं है²। किन्तु यह उसी अवस्था में है जब उच्च न्यायालय के विवेक के अनुसार बाद विशेष की परिस्थितियों में इस वाद में पुनरीक्षण द्वारा हस्तक्षेप करना उपयुक्त हो। इस स्थिति में किसी भी संशोधन द्वारा सुधार या बदल नहीं किया जा सकता है। अतः हम किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28 के अधीन प्रवर्तन और प्रवर्तन के अन्य तरीके।

5. 2 अंतरिम भरण-पोषण के आदेशों के प्रवर्तन के तरीकों पर भी प्रश्न उठाये गये हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28क (जैसा जोड़ा गया है) के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित सभी डिक्री और अदेश उसी प्रकार प्रवर्तित किये जाएंगे जिस प्रकार मौलिक दीवानी अधिकारिता के अन्तर्गत न्यायालय तत् समय लागू कानून के अधीन प्रवर्तित करता है। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिये इतना कहना ही पर्याप्त है।

प्रवर्तन के अन्य तरीके।

5. 3 इसके यह कदापि अर्थ नहीं है कि प्रवर्तन के अन्य तरीके आवश्यक रूप से प्रति-बंधित हैं। ये अन्य तरीके उदाहरणार्थ (क) कार्यवाही का स्थगन—जहां अंतरिम भरण-पोषण की अदायगी करने वाला पक्ष व्यवित्रक्रम करता है और वही पक्ष मुख्य कार्यवाही में अर्जीदार है³ (ख) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के अधीन प्रतिरक्षा को काट दिया जाय जहां अंतरिम भरण-पोषण की अदायगी करने वाला पक्ष अदायगी में व्यवित्रक्रम करता है और वह ही मुख्य याचिका में प्रत्यर्थी है⁴ (ग) अवमान के लिये सजा⁵ है।

प्रवर्तन के लिये संशोधन की आवश्यकता नहीं।

आपराधिक उत्तरदायित्व के संबंध में विधि आयोग की पूर्व रिपोर्ट।

5. 4 ऐसी अवस्था में अंतरिम भरण-पोषण के आदेशों के प्रवर्तन के तरीकों के प्रश्न पर किसी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती है।

5. 5 भरण-पोषण के आदेशों और उनके प्रवर्तन के विषय पर हम बता दें कि कुछ वर्ष⁶ पूर्व विधि आयोग ने किन्हीं परिस्थितियों में भरण-पोषण या पन्नी की न्यायालय द्वारा कतिपय कानूनों के आधीन स्वीकृत की गयी स्थायी निर्वाहिका की अदायगी में व्यवित्रक्रम होने पर आपराधिक उत्तरदायित्व की संस्तुति की थी। किन्तु रिपोर्ट को अभी लागू होता है।

1. केरल शास्त्राधार्म में प्रकाशित लेख देखें ऊपर के अनुच्छेद 3, 4 की पांच टिप्पणी देखें।

2. नरेन्द्रकुमार वि. सूरज मेहता ए. आई. आर. 1982 बांध प्र. 100

3. (क) कलकत्ता रानी वि. किशन कुमार ए. आई. आर. 1961 पंजाब 42

(ख) अनिता वि. धीरेन्द्र ए. आई. आर. 1962 कलकत्ता 88

(ग) भूनेश्वर वि. द्वोपता बाई ए. आई. आर. 1976 म. प्र. 259

4. (क) जयसिंह वि. बिमी भिकलू ए. आई. आर. 1978 हि. प्र. 45, 49, 50 अनुच्छेद 30

(ख) रामस्वरूप वि. जानकी ए. आई. आर. 1973 पंजाब 40

(ग) अनुराधा वि. संतोष नाथ ए. आई. आर. 1976 दिल्ली 240 है।

5. रामस्वरूप वि. जानकी ए. आई. आर. 1976 पंजाब 210

6. भारत के विधि आयोग की 73 वीं रिपोर्ट (न्यायालय द्वारा किन्हीं कानूनों के अधीन पत्ती को स्थायी निर्वाहिका अथवा भरण-पोषण की अदायगी में असफल होने पर आपराधिक दायित्व)

कार्यकारी पत्र पर प्राप्त टिप्पणियाँ

6. 1 प्रस्तावना वाले अध्याय में¹ जैसा कहा है हमने कानून विज्ञवितयों और संस्थाओं को इस रिपोर्ट के विषय पर उनके विचारों को आमंत्रित करने के लिये एक कार्यकारी पत्र प्रसारित किया था। यह प्रार्थना की गई थी कि 31 जनवरी 1984 तक उनके विचार आयोग को अवश्य प्राप्त हो जाये। रिपोर्ट को अंतिम रूप से देने से पूर्व रिपोर्ट के हस्ताक्षरित होने तक प्राप्त सभी उत्तरों का इसमें ध्यान रखा गया है।

कार्यकारी पत्र पर प्राप्त टिप्पणियाँ।

6. 2 कार्यकारी पत्र पर कुल मिलाकर दस उत्तर प्राप्त हुये। इनमें से दो उत्तर उच्च न्यायालयों के² चार राज्य सरकारों के³ एक उत्तर राज्य विधि आयोग⁴ का, एक उत्तर एक अधिवक्ता का⁵ एक उत्तर सामाजिक संघटन का,⁶ तथा एक उत्तर मंडास के एक सज्जन का⁷। इनमें से करीब करीब सभी आयोग द्वारा सुझाये गये मार्ग पर हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन करने से सहमत हैं।

प्राप्त उत्तर।

6. 3 राज्य विधि आयोग⁸ के कार्यालय से प्राप्त एक टिप्पणी में यह कहा गया है कि धारा 28 का क्या संशोधन आवश्यक नहीं है। इस टिप्पणी को अभी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं है (ऐसा कहा है। गया है) इस संदर्भ में यह बताना उचित होगा कि हम धारा 28 के संशोधन करने की संस्तुति कर रहे हैं⁹। हम हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 26 से संबंधित मामलों¹⁰ को ध्यान में रखकर संशोधन करने की संस्तुति करने जा रहे हैं क्योंकि इस रिपोर्ट के सुसंगत अध्यायों¹¹ और निर्णयन विधि पर चर्चा के अनुसार यह आवश्यक है।

कार्यकारी पत्र पर प्राप्त टिप्पणियों में अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता से सहमत होने के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त सुझाव भी दिये गये हैं। इन पर हम आगे आने वाले रिपोर्ट के अनुच्छेदों पर विचार करेंगे¹²।

उच्च न्यायालय।

6. 4 आयोग द्वारा प्रसारित किये गये कार्यकारी पत्र पर दो उच्च न्यायालयों में से एक उच्च न्यायालय ने उत्तर में कोई विचार नहीं भजे हैं¹³। जबकि दूसरा उच्च न्यायालय¹⁴ न आयोग द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं पर अधिनियम की संशोधन किये जाने से सहमति प्रकट की है।

उच्च सरकार।

6. 5 कार्यकारी पत्र पर उत्तर भेजने वाली सभी चारों राज्य सरकारों¹⁵ ने संशोधन की आवश्यकता से अपनी सहमति प्रकट की है। इनमें से एक में कुछ अतिरिक्त सुझाव भी दिये हैं जिसकी चर्चा उपयुक्त स्थान पर की जावेगी¹⁶।

1. ऊपर देखें अनुच्छेद 1, 3।

2. विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. क्र. सं. 5 और 10।

3. विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. क्र. सं. 6, 7, 8, 9 और 11।

4. विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. क्र. सं. 9।

5. विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. क्र. सं. 4।

6. विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83-एल. सी. क्र. सं. 3।

7. विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83-एल. सी. क्र. सं. 12।

8. विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. क्र. सं. 8।

मध्य प्रदेश विधि आयोग।

9. उत्तर अध्याय 5 देखें।

10. अध्याय 7 आगे देखें।

11. अध्याय 2-4 ऊपर देखें।

12. अनुच्छेद 6, 6. आगे देखें।

13. विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. क्र. सं. 5।

14. विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83-एल. सी. क्र. सं. 10।

15. विधि आयोग फाइल सं. एक. 2(14)/83 एल. सी. क्र. सं. 6, 7, 8 और 11।

16. अनुच्छेद 6, 10 से 6, 14 आगे देखें।

अतिरिक्त विचार भरण-
पोषण की डिक्री का
निष्पादन।

6. 6 कुछ उत्तरों से प्राप्त अतिरिक्त सुझावों पर अब हम विचार करते हैं। हम सर्वप्रथम दो उत्तरों का ऊलेख कर दें जिनमें भरण-पोषण के लिये प्राप्त डिक्री और आदेशों के निष्पादन में हो वाली देर और कठिनाइपों के प्रति चिठ्ठा प्रकट की गई है। इनमें से एक उत्तर मध्य प्रदेश¹ के एक अधिवक्ता का है जिन्होंने कहा है कि अत्यंत हीन आधिक अवस्थाओं के कारण महिलायें अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष समुचित ढंग से रखने में असमर्थ हैं²। यह विचार इस रिपोर्ट के क्षेत्र के बाहर है किन्तु उपश्रुत अधिकरणों द्वारा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। दूसरा उत्तर जो अधिक विस्तृत है—ज्वाइन्ट वीमेन्स प्रोग्राम (धर्म और समाज के अध्ययन के लिये इसाई संस्थान) नई दिल्ली³ द्वारा प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा दिये गये सुझाव अधिक विस्तृत हैं और इनकी आने वाले कुछ अनुच्छेदों में चर्चा की जायेगी⁴।

पति के उपार्जन की कुर्की ज्वाइन्ट वीमेन्स प्रोग्राम (सी. आई. एस. आर. एस.) का सुझाव।

6. 7 ज्वाइन्ट वीमेन्स प्रोग्राम नई दिल्ली जिसका ऊपर ऊलेख है⁵ ने अपने उत्तर में इस बात पर जोर दिया है कि दृढ़ विधि प्रक्रिया संहिता 1973 तथा अन्य अनेक वैयक्तिक कानूनों के अधीन दिलाया गया भरण-पोषण परिव्यक्तापत्ती को पर्याप्त सर्वेक्षण प्रदान नहीं करता है परिव्यक्ता पत्ती और अपत्य की रक्षा के लिये तथा पत्ती को मिलने वाली अनुतोष को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि पति के वेतन से भरण-पोषण की धनराशि निकाल लिये जाने का प्रावधान होना चाहिये यदि पति किसी शासकीय या जन अथवा वैयक्तिक क्षेत्र के संस्थान में कार्यरत है। यदि पति स्वयं रोजगार कर रहा है अथवा वह लापता है तो ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिये (ऐसा सुझाव दिया गया है) कि राज्यसरकार भी परिव्यक्त परिवार की रक्षा के लिये एक पक्ष हो सके।

भरण-पोषण की डिक्री और आदेशों के उचित रूप से प्रवर्तन की आवश्यकता के लिये इस प्रकार की संस्थाओं की चित्ता और गनता की हम सराहना करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा उठाये गये कुछ बिन्दु दृष्टांत के लिए सुनिश्चित मामलों में परिव्यक्त परिवार के संरक्षण का भार राज्य द्वारा बहत किया जाय ऐसा विचार है जो हिन्दू विवाह अधिनियम अथवा अन्य विवाह संबंधी किसी भी कानून के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन हम इंगित करता चाहते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 चूक करने वाले का वेतन या अन्य आय के श्रोतों को कुर्की करने में पर्याप्त रूप सक्षम हैं। चूक करने वाले निर्णीत भरणी की सभी व्ययन-शील संपत्ति भरण-पोषण के आदेश⁶ या डिक्री के निष्पादन को संहिता के अधीन कुर्की किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत वेतन अथवा अन्य नियत कालिक उपार्जन सभी आते हैं। इसमें केवल एक उपबंध है और वह वेतन के संबंध में है जिसमें वेतन का एक सुनिश्चित भाग कुर्की से छूट प्राप्त है।⁷ वर्तमान विधि के अधीन भरण-पोषण की डिक्री वेतन का एक तिहाई भाग छूट प्राप्त है। यहाँ यह बताना उचित होगा कि संहिता⁸ में (1) शासकीय अथवा अन्य कर्मचारियों के वेतन की (2) और स्वयं रोजगार रत बिना वेतन के आय वाले अन्य व्यक्तियों के कुर्की की प्रक्रिया के संबंध में सुनिश्चित प्रावधान है। हम आशा करते हैं कि कानून की अधिक जानकारी के साथ-साथ इन प्रावधानों की जानकारी अधिक होती जायेगी।

पति के सारत से बाहर रहने पर आस्तियों की घोषणा।

6. 8 इसी संख्या नं⁹ (ज्वाइन्ट वीमेन्स प्रोग्राम नई दिल्ली) ने यह भी कहा है कि देश से बाहर रह कर आजीविका कामाने वाले पुरुष भारत में स्थियों से संदेहास्पद और प्रवृत्तक तरीकों से विवाह कर लेते हैं ऐसे लोग, ऐसा कहा गया है, विवाह के बाद पत्ती को छोड़ देते हैं और परिव्यक्त पत्ती बिना किसी आजीविका या भरण-पोषण के साधन के रह जाती है। इस कमी को दूर करने के लिये यह सुझाव दिया गया है कि पति को अपनी आस्तियों की घोषणा करनी चाहिये और पत्ती के भरण-पोषण के लिये विवाह के समय ही प्रावधान करना चाहिये। यद्यपि हम ऐसी परिस्थितियों में स्थियों के संरक्षण की आवश्यकता की सराहना करते हैं। फिर भी हमें यह ध्यान देना चाहिये कि यह सुझाव व्यवहारिक होने पर भी इस रिपोर्ट की परिधि के बाहर है।

1. विधि आयोग फाइल सं. एफ 2(14)/83-एल. सी. क्र. सं. 4 (मध्य प्रदेश के एक अधिवक्ता)
2. विधि आयोग फाइल सं. एफ 2(4)/83-एल. सी. क्र. सं. 3 (ज्वाइन्ट वीमेन्स प्रोग्राम सी. आर. एस. आर. एस. नई दिल्ली)
3. अनुच्छेद 6. 7 से 6. 9 आगे देखें।
4. अनुच्छेद 6. 6, ऊपर देखें।
5. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 (1)
6. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60(1) परन्तु (1) बाँट (1क)
7. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आईर 21 नियम 46 और 48
8. विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83-एल सी. क्र. सं. 3

6. 9 उसी संस्था¹ द्वारा अप्राप्तवय अपत्यों के अभिरक्षण के संबंध में सुझाव दिया गया है। किन्तु अप्राप्तवय अपत्य का अभिरक्षण।

यह सुझाव भी रिपोर्ट की परिधि के बाहर है। संस्था का सुझाव है कि तलाक के मामलों में अपत्य का अभिरक्षण, अपत्य के हितों की सबसे अच्छी देखभाल करने वाले पति या पत्नी को दिया जाना चाहिये और यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अपत्य की सुख और सुविधापूर्ण बढ़ाव तो के लिये माता ही प्राथमिक महत्व की है। जब तक कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो²।

6. 10 पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कार्यकारी पद पर अपनी टिप्पणी में अनेक अतिरिक्त विचार दिये (विधायी विभाग में)³ दिये गये हैं। इसमें दिये गये विचार कानून में प्रभावी सुधार किये जाने की गहरी इच्छा प्रदर्शित करते हैं; यद्यपि वे विचार इस रिपोर्ट के क्षेत्र के बाहर हैं। वास्तव में कुछ मामले तो ऐसे हैं जो विवाह संबंधी कार्यवाहियों के क्षेत्र के बाहर होने के कारण वाद विषय ही नहीं अपनाये जा सकते हैं। इस तथ्य पर बल देते हुए कि पति-पत्नी के सुख से विहीन घर और परिवर्कत पति-पत्नी अपत्य के जीवन को विध्वस्त कर डालते हैं सुझाव में बहुत से मुद्दे उठाये गये हैं जिसका जिक्र हम संक्षेप में करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रथम मुद्दा जो उठाया गया है वह यह है कि आवेदन देने के ऊपर हिन्दू विवाह अधिनियम धारा 26 के पञ्चात्यर्ती भाग के अनुसार भी कोई जोर नहीं दिया जाना चाहिये। (मुनवाई की समाप्ति पर भरण-पोषण के लिये पारित होने वाले आदेश) और आवेदन की आवश्यकता को ही छोड़ दिया जाना चाहिये। हमने इस बात पर विचार किया है। व्यवहार में पर्यार्थ रूप में अनुरूप की गई किसी गंभीर कठिनाई के अभाव में हम इसे छोड़ने (आवेदन देने की आवश्यकता) की संस्तुति नहीं करते हैं। यह मामला स्थायी-भरण-पोषण के आदेश से संबंधित है और यदि उसे रिकार्ड में किसी के आधार पर निपटाया जाता है तो इसमें व्यवहारतः सुविधा ही है।

6. 11 पश्चिमी बंगाल सरकार के सुझाव⁴ में उठाया गया दूसरा मुद्दा यह है कि विवाह संबंधी अभिवचन में अपत्यों के बारे में प्रकटीकरण। प्रत्येक कार्यवाही में यह स्पष्ट करना आवश्यक होना चाहिए कि क्या पति-पत्नी के बच्चे हैं जिसमें उनकी संख्या, लिंग, आयु, अभिरक्षण, भरण-पोषण और शिक्षण के संबंध में पूर्ण विवरण होना चाहिये। इस सुझाव देने के पीछे यह उद्देश्य है कि अपत्य को यदि उनके प्रति कूर दुर्लक्ष किया जा रहा है। राहत निश्चित रूप से दी जा सके और न्यायालय का ध्यान तुरन्त दिलाया जा सके। ऐसी आशा की गई है कि अभिवचन के प्राप्त होते ही न्यायालय मामले की बाढ़ीय अत्यावश्यकता को देखते हुए मामले के इस पक्ष पर प्रथमतः ही विचार करे।

यह सुझाव बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करने का विषय है। हम इस रिपोर्ट में इस पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि यह सुझाव इस रिपोर्ट के तंग दायरे से बाहर है। लेकिन यह मामला अपत्यों के कल्याण से संबंधित विस्तृत स्तर पर कानूनों के सुधार के समय लिया जा सकता है⁵।

6. 12 विधि आयोग के कार्यकारी पद में अंतरिम भरण-पोषण की तिथि के प्रभावी होने की तिथि के संबंध में सुझाव के ऊपर टिप्पणी करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने⁶ सुझाव दिया है कि भरण-पोषण की अदायगी का दायित्व ठीक उसी तिथि से प्रारम्भ होना चाहिए जिस तिथि से भरण पोषण करने के कर्तव्य को भग किया गया है औरे काट में पढ़े पति-पत्नी या अपत्यों के भरण पोषण को छोड़ने या उपेक्षा किये जाने को ही इस संबंध में निकल मानना चाहिए। इस रिपोर्ट के विचारागत प्रावधानों से अथवा हिन्दू विवाह अधिनियम परसंपूर्ण रूप से विचार करते समय सुझाये गये परिवर्तनों का हमारे मतानुसार, मेल नहीं बैठता है। उस अधिनियम के संदर्भ में भरण पोषण के आदेश का प्रश्न इस लिये ही उत्पन्न होता है क्योंकि अधिनियम द्वारा वैवाहिक राहत की व्यवस्था है। चूंकि इस प्रकार की कार्यवाहियों से विवाह का अस्तित्व ही वाद विषय होता है इसलिये कानून के लिये वह आवश्यक हो जाता है कि पति-पत्नी के वैवाहिक संबंध भग होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मामलों पर विचार करे। अतः केवल उत्तनी ही दूर तक के लिये अधिनियम में भरण पोषण के आदेश प्रदान किये जा सकते हैं। अधिनियम के अधीन अनुतोष प्राप्त

कार्यवाही समाप्ति पर धारा 26 के अधीन आवेदन से अभियुक्त विवेजने का सुझाव (पश्चिमी बंगाल सरकार का सुझाव)।

1. विधि आयोग फाइल सं. एफ. 2(14)/83-एल. सी. क्र. सं. 3 अनुच्छेद 2

2. अपाहिज अपत्यों के लिये अनुच्छेद 6. 14 आगे देखें।

3. विधि आयोग फाइल सं. एफ 2(14)/83-एल. सी. क्र. सं. 6

4. विधि आयोग फाइल सं. एफ 2(14)/83-एल. सी. क्र. सं. 3

5. भविष्य में विचारार्थ विषय

6. विधि आयोग फाइल सं. एफ 2(14)/83 एल. सी. क्र. सं. 6

विवाह कार्यवाही के प्रारम्भ होने की पूर्व तिथि से आदेश प्रभावी हो सकता है?

करने के आवेदन की अवधि तक के लिये भरण-पोषण का प्रश्न विवाह संबंधी अनुतोष प्राप्त करने के लिये दाखिल की जाने वाली याचिका की आनुसारिक नहीं है। एक वैवाहिक कार्यवाही पूर्व भरण-पोषण के बकाया के पुनः प्राप्ति के दावों के लिये उपयुक्त कार्यवाही नहीं प्रतीत होती है। तात्त्विक विधि के अनुसार भरण-पोषण की अदायगी का उत्तरदायित्व अपेक्षा प्रारम्भ होते ही प्रारम्भ हो जाती है। किन्तु इस उत्तरदायित्व का प्रवृत्तन करने की मशीनरी वैवाहिक कानून में ही ही यह आवश्यक नहीं है। इसी कारण हम यह सुझाव स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह कहीं बहुत अधिक तकनीकी विषय न बने इसलिये हम यह बताना चाहते हैं कि हम भरण-पोषण के दावों के जल्द निपटाने के महत्व को किसी भी प्रफार कम आकर्ते को तैयार नहीं है। इस संबंध में उपयुक्त मशीनरी का प्रावधान हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम या (जहां यह अधिनियम लागू नहीं होता है) सामान्य विधि में किया गया है।

स्लिपों पर आर्थिक और
मतोंवैज्ञानिक व्यावर।

6. 13 यह सत्य है कि कभी कभी कार्यवाही को दाखिल करने के साधनों के अभाव में और अन्य दबाव के कारण (इसमें स्लिपों पर वह मनोवैज्ञानिक दबाव भी सम्मिलित है जिसके कारण वे इस तरह के मामले न्यायालय में नहीं लाना चाहती हैं) एक स्त्री तुरन्त ही कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने में असमर्थ होती है और इस दरी के कारण भरण-पोषण बकाया हो सकता है। लेकिन यह उचित कारण नहीं है जिसके लिये अधिनियम की व्यवस्था को संग किया जाय।

6. 14 पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम में ही अपाहिज बच्चों के भरण-पोषण के संबंध में प्रावधान किया जाना चाहिये¹। यह भुवा भी सामान्य भरण-पोषण के कानून का प्रश्न उपस्थित करता है और इस रिपोर्ट में इस पर विचार करना अनुपयुक्त होगा जिसका विचार विषय विवाह संबंधी अनुतोष² के परिणाम स्वरूप भरण-पोषण की मशीनरी पर विचार करना है।

1. विधि आयोग फाइल सं. एफ 2(14)/83-एल. री. 83 क सं. 6

2. देखें अनुच्छेद 6. 12 ऊपर

संस्तुतिवां

7. 1 ऊपर के अध्याय में की गई चर्चा के अनुसार और समस्याओं (1) हिन्दू विवाह अधिनियम संस्तुतिवां । 1955 की धारा 26 के अधीन अंतर्रिम भरण-पोषण के लिये क्या औपचारिक आवेदन आवश्यक है ? और (2) अधिनियम के अधीन अन्तर्रिम भरण-पोषण का आदेश (पति-पत्नी अथवा अपत्यों के लिये) किस तिथि से प्रभावी हो, पर विचारोपरान्त हमारा मत है कि उपयुक्त दोनों ही बिन्दुओं पर अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये । हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि तबसे न्यायपूर्ण और सुविधाजनक मार्ग होगा कि

- (i) इस धारा¹ के उद्देश्य के लिये अंतर्रिम भरण-पोषण के औपचारिक आवेदन की आवश्यकता की समाप्ति अधिनियम की धारा 26 के संशोधन द्वारा कर दी जाय और इसी समय इस धारा की पठनीयता में सुधार करने के लिये इसे तोड़ दिया जाय ।
- (ii) इस धारा में एक नयी धारा (जिसे 26क कहें) जोड़ दी जाय जिसमें अन्तर्रिम भरण-पोषण के आदेश के प्रभावी होने की तिथि के संबंध में सुनिश्चित रूप से प्रावधान कर दिया जाना² चाहिये ।

7. 2 यदि उपर्युक्त संस्तुति स्वीकार कर ली जावे तो धारा 26 को पुनरीक्षित करने का यहां ठोस हिन्दू विवाह अधिनियम की पुनरीक्षित धारा 26 सुझाव दिया जा रहा है :—

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की पुनरीक्षित धारा 26 (जैसी संस्तुति की जा रही है)

“26 इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में—

- (क) न्यायालय समय-समय पर अप्राप्तवय अपत्य की ओर से धारे कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा नहीं अप्राप्तवय अपत्यों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में यथा-संभव उनकी इच्छा के अनुकूल ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे, और”
- (ख) “डिक्री के पश्चात् इस प्रोजेक्ट से अर्जी द्वारा किये गये आवेदन पर ऐसे अपत्य की अभिरक्षा भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में समय समय पर ऐसे आदेश या उपबंध कर सकेगा जो डिक्री अधिप्राप्ति करने की कार्यवाही के लम्बित रहते रहते एवं डिक्री या अंतर्रिम आदेश द्वारा किये जा सकते थे”, और
- (ग) “न्यायालय पूर्वतन किये गये ऐसे किसी आदेश या उपबंध को समय समय पर प्रतिसंहृत या निलंबित कर सकेगा अथवा उसमें फरफार कर सकेगा ।”

हम उपयुक्त भांति धारा 26 को संशोधित किये जाने की संस्तुति करते हैं ।

7. 3 हम यह भी संस्तुति करते हैं कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में एक नयी धारा 26ए हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में नयी धारा 26क जोड़ने की संस्तुति

- “26क—धारा 24 या धारा 26 के अधीन किये गये अंतर्रिम भरण पोषण के आदेश को प्रभावी
- (क) यदि न्यायालय परिस्थितियों में न्यायसंगत या उचित समझे तो उस तिथि से किया जाय जो इस धारा के अधीन किये आवेदन की तिथि से पूर्वतन न हो ।
- (ख) या जहां धारा 26 के अधीन कोई अर्जी नहीं दी गई है वहां यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत और उचित समझे तो—उस तिथि से किया जाय जो मुख्य कार्यवाही के दाखिल किये जाने की नीटिस की तारीख की तिथि से पूर्वतन न हो ।

1. अनुच्छेद 3, 6 ऊपर

2. अनुच्छेद 4, 6 ऊपर

के० के० मैथ्रु

वेवरमैन

जे० पी० चतुर्वेदी

सदस्य

डा० एम० लौ० राय

सदस्य

पी० एम० बक्शी

अंग्रेजिक सदस्य

बेपा० पी० सारथी

अंग्रेजिक सदस्य

ए० के० श्रीमिथाल भूति

सदस्य सचिव

दिनांक

Price : Inland—Rs. 13.50 P.; Foreign—£ 1.58 or 4 \$ 86 Cents.

1985

प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन
नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित।